



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY,

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (1)
PART II—Section 3—Sub-section (1)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 394]
No. 394]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 30, 1982/पौष 9, 1904
NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 30, 1982/PAUSA 9, 1904

इस भाग में निम्न सूच संख्या दी जाती है जिससे कि यह जलन संकलन को कम से
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

गृह मंत्रालय

(उत्तर क्षेत्रीय परिषद् सचिवालय)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 1982

सा० का० नि० 775(अ).—राष्ट्रपति, संविधान अनुच्छेद 309 के परन्तु द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उत्तर क्षेत्रीय परिषद् सचिवालय (गृह मंत्रालय) में समिति अधिकारी के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उत्तर क्षेत्रीय परिषद् सचिवालय (गृह मंत्रालय) (समिति अधिकारी) भर्ती नियम, 1982 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- वर्गीकरण और वेतनमान : पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा जो इन नियमों से निम्नलिखित अनुसूची के स्तंभ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट है।
- भर्ती की पद्धति, आयु सीमा और अन्य अर्हताएँ : उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएँ और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से 13 में विनिर्दिष्ट हैं।
- निरहताएँ : वह व्यक्ति—
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या
(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनु-
ज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति : जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचित है, वहाँ वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें
लेखबद्ध करके संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों का बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर
सकेगी।

6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई भी बात ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकासे गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य विशेष प्रवर्गों के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	अनुसूची		सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
				न्यूनतम पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा		
1	2	3	4	5	6	7	8
समिति अधिकारी	1* (1982) *कार्य-भार के प्रसार पर परि-वर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ख" राजपत्रित, लिपिक-वर्गीय	650-30-740-35-810-४० रो०-35-880-40-1000-४० रो०-40-1200 रुपये	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रो-पत व्यक्तियों की दक्षा में लागू होंगी या नहीं

परिवर्तन की अवधि, यदि कोई हो

भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोपति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा/तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता

प्रोपति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोपति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाएगा

यदि विभागीय प्रोपति समिति है तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परि-स्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

8	9	10	11	12	13
लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रोपति/प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा	प्रोपति/प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण : (1) केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी— (i) (क) जो सबूत पद धारण किए हुए हैं; या (ख) जिन्होंने 550-900 रु० या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर 3 वर्ष सेवा की हैं; या (ग) जिन्होंने 425-700 रु० या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर 8 वर्ष सेवा की है और (1) जिनके पास अधि-वेशनों की व्यवस्था करने में सम्बंधित संगठनात्मक कार्य का अनुभव हो। (2) ऐसे विभागीय अधी-क्षक के संबंध में जो विचार किया जाएगा जिसने उस श्रेणी में 3 वर्ष नियमित सेवा की है और	(पुष्टि पर विचार करने के लिए) समूह "ख" विभागीय प्रोपति समिति : 1. संयुक्त सचिव, उत्तर क्षेत्रीय परिषद् सचिवालय, गृह मंत्रालय—अध्यक्ष। 2. उप सचिव (प्रशासन), गृह मंत्रालय—सदस्य 3. उप सचिव, क्षेत्रीय परिषद् सचिवालय, गृह मंत्रालय—सदस्य टिप्पण : पुष्टि से संबंधित विभागीय प्रोपति समिति की कार्य-वाहियां, आयोग के अनुमोद-मार्थ भेजी जाएंगी। किंतु, यदि आयोग उनका अनुमोदन नहीं करता है तो विभागीय प्रोपति समिति की बैठक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की अध्यक्षता में फिर से होगी।	इस पद पर नियुक्ति के लिए किसी अधिकारी का चयन करते समय संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

11

यदि उसका उस पद पर
नियुक्ति के लिए चयन हो
जाता है तो वह पद पदो-
न्नति द्वारा भरा गया
समझा जाएगा।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि,
जिसके अन्तर्गत इस नि-
युक्ति में ठीक पहले धन
किसी अन्य काष्ठर बाह्य
पद पर प्रतिनियुक्ति की
अवधि है, 3 वर्ष से अधिक
नहीं होगी।

[सं० 25/20/82-जेड० सी०एस०]
पी० एन० नारायणन, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(Northern Zonal Council Secretariat)

NOTIFICATION

New Delhi, 28th December, 1982

G.S.R. 775(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Committee Officer in the Northern Zonal Council Secretariat (Ministry of Home Affairs), namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Northern Zonal Council Secretariat (Ministry of Home Affairs) (Committee Officer) Recruitment Rules, 1982.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. Classification and scale of pay.—The number of posts, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule below.

3. The method of recruitment, age limit and qualifications, etc.—The method of recruitment age limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns 5 to 13 of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	No. of posts	Classi- fication	Scale of Pay	Whether Selection Post or Non-Selec- tion Post	Age limit for direct recruits	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the C.C.S. (Pension) Rules, 1972	Educational and other quali- fications required for direct recruits
1	2	3	4	5	6	6(a)	7
Committee Officer	1* (1982) *Subject to vari- ation on depen- dent on work load.	General Central Service Group 'B' Gazetted Ministerial	Rs. 650-30- 740-35-810- EB-35-880, 40-1000- EB-40-1200	Selection	Not Applicable	Not Applicable	Not Applicable

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits with apply in the case of Promotees.	Period of probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer & percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making recruitment.
8	9	10	11	12	13
Not Applicable	Two years	By promotion/transfer on deputation.	<p>Promotion/transfer on deputation :—</p> <p>(1) Officer under the Central Government :—</p> <p>(i) (a) holding analogous posts; or</p> <p>(b) with 3 years service in posts in the scale of Rs. 550-900 or equivalent; or</p> <p>(c) with eight years service in posts in the scale of Rs. 425-700 or equivalent; and</p> <p>(ii) Possessing experience of organisational work relating arrangements for meetings.</p> <p>(2) The departmental Superintendent with 3 years regular service in the grade will also be considered and in case he is selected for appointment to the post, the same shall be treated as having been filled by promotion. (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment shall not exceed 3 years).</p>	<p>Group, 'B' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation)</p> <p>1. Joint Secretary Northern Zonal Council Secretariat, Ministry of Home Affairs—Chairman.</p> <p>2. Deputy Secretary, (Administration) Ministry of Home Affairs—Member.</p> <p>3. Deputy Secretary, Northern Zonal Council Secretariat, Ministry of Home Affairs—Member.</p> <p>Note.—The Proceedings of the Departmental Promotion Committee relating to confirmation shall be sent to the Commission for approval. If however these are not approved by the commission a fresh meeting of the Departmental Promotion Committee to be presided over by the Chairman or a Member of the UPSC shall be held.</p>	<p>Consultation with the Union Public Service Commission not necessary while selection an officer for appointment this post</p>

(No. 25/20/82-ZCS]

P.N. NARAYANAN Jt. Secy.